



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 1977/चैत्र 1, 1899

No. 136]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 1977/CHAITRA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March 1977

**S.O. 249(E)**—Whereas the Election Commission has received reports from the Returning Officer of 13-Firozpur Parliamentary Constituency that the counting on 21 March, 1977 was seriously disturbed by violence; that the ballot papers of some of the assembly segments of the parliamentary constituency have been destroyed by violence; that as a consequence it is not possible to complete the counting of the votes in the constituency and the declaration of the result cannot be made with any degree of certainty

And whereas the Commission is satisfied that taking all circumstances into account, the poll in the constituency has been vitiated to such an extent as to affect the result of the election.

Now, therefore, the Commission, in exercise of the powers vested in it under article 324 of the Constitution Section 153 of the Representation of the People Act, 1951 and all other powers enabling it so to do, cancels the poll already taken in the constituency and extends the time for the completion of the election up to 30 April, 1977 by amending its notification No. 484/77, dated 10 Febru-

ary, 1977 issued under section 30 as subsequently amended by the notification No. 464/77, dated 25 February, 1977 in respect of the above election as follows:—

In clause (d) of item (1) of the said notification (d) relating to the completion of election—

(a) in the existing item (1), after the words "State of Jammu and Kashmir", the words "and 13-Firozpur parliamentary constituency in the State of Punjab" shall be inserted; and

(b) the existing item (ii) shall be renumbered as item (iii), and before the item (iii) as so renumbered, the following item shall be inserted, namely:—

"(ii) 30 April, 1977 (Saturday) as the date before which the election shall be completed in 13-Firozpur parliamentary constituency in the State of Punjab."

[No. 464/77]

By Order,

A N SEN, Secy.

### भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1977

का०आ० 249(अ०) — 13 फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर से निर्वाचन आयोग को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि तारीख 21 मार्च, 1977 को मतगणना में हिसक तारीके से भारी गड़बड़ी की गई थी; और यह कि उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के विधान सभाई मेम्बरों में से कुछ के मतपत्र हिमक तारीके से नष्ट कर दिए गए हैं, और यह कि इस के परिणामस्वरूप इस निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना पूरी करना सम्भव नहीं है और उसका परिणाम किसी भी अण तक निविवाद रूप से घोषित नहीं किया जा सकता है,

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान ऐसी सीमा तक दूषित हो गया है जिस से निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होता है।

अतः अन्न निर्वाचन आयोग सविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के अधीन उस में निहित शक्तियों, और ऐसा करने के लिए उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने हुए, इस निर्वाचन-क्षेत्र में पहले हुए मतदान को रद्द करता है और उक्त निर्वाचन के बारे में धारा 30 के अधीन जारी की गई और तत्पश्चात् अधिसूचना सं० 464/77 तारीख, 25 फरवरी, 1977 द्वारा यथा मणोधित अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 10 फरवरी, 1977 को मणोधित करते हुए, निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय का विस्तारण तारीख, 30 अप्रैल, 1977 तक इस प्रकार करता है —

उक्त अधिसूचना की निर्वाचन को पूरा करने से सुसगत मद (i) के खण्ड (घ) में —

(क) विद्यमान मद (i) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के 4 लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र" शब्दों के पश्चात् और पंजाब राज्य का 13 फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द जोड़े जाएंगे, और

(ख) विद्यमान मद स० (ii) को मद (iii) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा, और ऐसे पुनः संख्याकित मद (iii) से पहले, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् —

“(ii) वह तारीख जिसके पूर्व ‘पंजाब राज्य के 13, फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा —  
30 अप्रैल, 1977 (शनिवार)

[स० 464/77]

आदेश में

ए० एन० सैन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1977

